

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH- CEERI, Pilani

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110001

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रोफार्मा

PROFORMA FOR RE-IMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE/HOSTEL SUBSIDY

(दिनांक 16.08.2017 का डीओपीटी का का.जा.सं. ए-27012/02/2017-इस्ट(एएल)/DoPT OM No. A-27012/02/2017-Estt.(AL))

वित्तीय वर्षहेतु दावा

Claim for Financial Year.....

एतद्वारा मैं अपने बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता/करती हूँ। संबंधित ब्योरा नीचे दिया गया है :-

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance/Hostel Subsidy for my child/children and relevant particulars are furnished below

क/A. कर्मचारी का विवरण/Details of the Employee:

1.	कर्मचारी का नाम/Name of the Employee	
2.	कर्मचारी की पहचान पत्र (आईडी) सं./Employee ID	
3.	पदनाम/Designation	

ख/B. उस बच्चे/उन बच्चों का विवरण जिसके/जिनके लिए बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान का दावा किया गया है :

Details of children for whom Children Education Allowance/Hostel Subsidy is claimed:

	पहला बच्चा/1st Child	दूसरा बच्चा/2nd Child
बच्चे का नाम /Name of the Child		
जिस दिन आवेदन किया है उस दिन जन्म तिथि/ आयु Date of Birth/Age as on date of applying		
जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम/School in which studying		
किस कक्षा में पढ़ रहे हैं/Class in which studying		
क्या छात्रावास अनुदान का दावा किया गया है, यदि हां तो कर्मचारी के आवास से छात्रावास की दूरी/ Whether Hostel Subsidy claimed, if yes, distance from Hostel to residence of employee		
शैक्षणिक वर्ष 20.....से 20.....तक के लिए पहले ही प्राप्त बाल शिक्षा भत्ता/ छात्रावास अनुदान की राशि/ Amount of CEA/Hostel subsidy already received for the Academic Year 20.....20.....		
दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि/Amount of reimbursement claimed		

जिस बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ते /छात्रावास अनुदान का आवेदन किया गया है क्या वह निःशक्त हैं :

Whether the child for whom the CEA/hostel subsidy is applied is a disabled child:

(i) यदि हां तो यह बताइए कि निःशक्तता किस प्रकार की है :

If yes, indicate the nature of disability:

(ii) निःशक्तता प्रमाणपत्र की तिथि :

Date of disability certificate:

(iii) निःशक्तता की प्रतिशतता इंगित कीजिए :

Indicate the percentage of disability:

ग/C.

1. प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे के समक्ष इंगित शुल्क, संस्थान (संस्थानों) से प्राप्त संलग्न प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के माध्यम से मेरे द्वारा वास्तविक रूप से अदा किया गया है।
Certified that the fees indicated against the child/each of children had actually been paid by me vide certificate(s) attached.
2. प्रमाणित किया जाता है कि/ Certified that :
 - (i) मेरी पत्नी/ पति केन्द्र सरकार/स्वायत्त संगठन की सेवा में नहीं हैं;
My wife/husband is not in service of a Central Government/Autonomous Organization;
 - (ii) मेरी पत्नी/ पति केन्द्र सरकार/स्वायत्त संगठन की सेवा में हैं किंतु वे हमारे बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति का दावा अपने विभाग से नहीं करेंगे ;
My wife/husband is in the service of a Central Government/Autonomous Organization but she/he will not claim reimbursement of children education allowance/hostel subsidy in respect of our child/children from her/his department;
 - (iii) मेरी पत्नी/पतिकार्यालय में नियुक्त हैं किंतु अपने नियोक्ता के नियमानुसार वे हमारे बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं ;
My wife/husband is employed with.....but she/he is not entitled to reimbursement of children education allowance/hostel subsidy in respect of our child/children as per rule of her/his employer;
 - (iv) मैं/मेरी पत्नी/मेरे पति मेरे किसी भी बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान का आहरण नहीं कर रहे हैं;
I/my wife/husband are not drawing children education allowance/hostel subsidy in respect of any of my children;
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस दावे में उल्लिखित समयावधि के दौरान मेरे बच्चे/ बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल(स्कूलों) में उपस्थिति दी है और बिना छुट्टी का उचित आवेदन किए एक माह से अधिक अवधि के लिए स्कूल (स्कूलों) से अनुपस्थित नहीं रहे हैं।
Certified that during period covered by this claim, the child/children attended the school(s) regularly and did not absent himself/herself/themselves from the school(s) without proper leave for a period exceeding one month;
4. यदि उक्त विवरण में कोई परिवर्तन होता है जिसकी वजह से मेरे बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते /छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु मेरी पात्रता प्रभावित होती है तो मैं वचन देता हूँ कि उसकी सूचना मैं तुरंत दूंगा/दूंगी और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हुआ है तो उसे वापस करूंगा/करूंगी;
In the event of any change in the particulars given above which affects my eligibility for reimbursement of children education allowance/hostel subsidy, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any, made;
5. दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों का विवरण:
(यदि निर्धारित प्रोफार्मा में संस्थान/ स्कूल के प्रमुख से यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सके कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान उस बच्चे ने संस्थान / स्कूल में पढाई की तो बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान किए गए शुल्क की स्व-सत्यापित रसीदें या रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति की आवश्यकता है तथा छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान किए गए शुल्क की स्व-सत्यापित रसीदें एवं रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति की आवश्यकता है।)
Details of documents attached in support of claim:
(In case the certificate from Head of Institution/ School certifying that the child studied in the Institution/ School during the previous academic year cannot be obtained in the prescribed proforma, Self-attested Receipts of fee paid **OR** Self-attested copy of report card is required for claim of CEA and Self-attested Receipts of fee paid **AND** Self-attested copy of report card are required for claim of hostel subsidy).

दिनांक/Date :

(परिषद के कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

(Name & Signature of the Council Servant)

कर्मचारी की पहचान पत्र सं./ Employee's ID no.:

**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110 001.
CEERI, Pilani**

(DoPT OM No. A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16.08.2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

(For reimbursement of Children Education Allowance/ Hostel Subsidy)

Ref. No. _____

Date: _____

It is certified that Master/Kumari _____
having, Admission No. _____ D.O.B _____
Son/Daughter of Mr./Mrs _____ was
studying in class _____ Section _____ Roll No. _____ during the previous
academic year from _____ to _____ School/ Institution,
namely _____ vide affiliation
Regd. No./ Code _____ and pattern _____ Curriculum.

(For claim of Hostel Subsidy only, strike out if not applicable)

It is also confirmed that Master/Kumari _____ has paid
an amount of Rs. _____
(Rupees _____)
towards boarding and lodging in the residential complex.

Signature of Principal
(Affix School Stamp)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
सीरी, पिलानी

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 16.08.2017 के
का.ज्ञा.सं.ए-27012/02/2017-स्था. (एएल))

संस्थान/ स्कूल के प्रधान द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
(संतान शिक्षा भत्ता / छात्रावास सहायिकी की प्रतिपूर्ति हेतु)

संदर्भ सं.-----

दिनांक:- -----

प्रमाणित किया जाता है कि कु. -----

प्रवेश संख्या ----- जन्म तिथि -----

सुपुत्र/सुपुत्री, श्री/श्रीमती----- स्कूल/संस्थान -----

----- में वर्ष ----- से -----

के पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा ----- सेक्शन ----- में अनुक्रमांक -----

के साथ अध्ययनरत थे/थी। उनकी पंजीकरण संख्या/कोड ----- तथा पैटर्न -----

पाठ्यक्रम था।

(केवल छात्रावास सहायिकी के दावे हेतु, यदि असम्बद्ध हो तो कृपया काट दें)

यह भी पुष्टि की जाती है कि कु. ----- ने आवासीय परिसर

(रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स) में बोर्डिंग (भोजन व्यवस्था) और लॉजिंग (निवास) हेतु रु. ----- (शब्दों में

रुपये -----) की धनराशि का भुगतान किया है।

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर
(स्कूल की मुहर सहित)